


TOPIC - Attention deficit disorder
 ध्यान / अवधान / काकायहीन अवस्था

किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, विचार या क्रिया पर अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित करने से होता है।

हमारे मन और मस्तिष्क से सम्बन्धित कोई ऐसी शक्ति या उद्यता या कार्यक्षमता है जिसे हम अपनी इच्छानुसार सक्रिय या निष्क्रिय बना सकते हैं तथा अपनी सुविधानुसार उसका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। मज्जी हुई तो ध्यान दिया, नहीं हुई तो नहीं दिया, फिर जैसे ही चाहा वैसा ही किसी काम में कम या अधिक ध्यान दे दिया।
 प्रसिद्ध विद्वानी द्वारा ध्यान / अवधान के प्रकार

ध्यान (Attention)



ध्यान, Attention deficit disorder के लक्षणों या विशेषताओं वाले बच्चों में रुचियों, प्रवृत्तियों आवश्यकताओं, तथा इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है।